

वार्षिक प्रतिवेदन 2016-2017

महाविद्यालय इतिहास शहीद दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय, खरखौदा के भवन का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कर कमलों द्वारा, श्रीमती गीता भुक्कल तत्कालीन शिक्षा मंत्री, हरियाणा की अध्यक्षता एवं श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद लोक सभा रोहतक, श्री जितेंद्र मलिक सांसद, लोकसभा सोनीपत, श्री राव दान सिंह, तत्कालीन मुख्य संसदीय सचिव, शिक्षा विभाग हरियाणा व श्री जयवीर सिंह तत्कालीन मुख्य संसदीय सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 3 फरवरी, 2013 रविवार को संपन्न हुआ।

भवन निर्माण

उन्नतशील शिक्षा समिति खरखोदा की देखरेख में महाविद्यालय की दो मंजिला भवन का भव्य निर्माण करवाया गया। इस भवन में प्राचार्य कार्यालय, स्टाफ रूम, कार्यालय, दो लघु सेमिनार कक्ष, शिक्षण कक्ष, महिला प्रकोष्ठ कक्ष, विशाल बहुउद्देशीय कक्ष, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, भाषा लैब, दो भूगोल लैब, दो मनोविज्ञान लैब, एक रक्षा अध्ययन लैब, एक स्मार्ट कक्ष, व छात्र-छात्राओं के कॉमन रूम सहित कुल 22 कमरे हैं।

महाविद्यालय परिवार

हमारे महाविद्यालय में 9 प्राध्यापक नियमित एवं 8 एक्सटेंशन लेक्चरर कार्यरत हैं। महाविद्यालय में 2 लिपिक, एक लैब अटेंडेंट, एक सुख सहायक, दो सफाई कर्मचारी, दो माली, दो चौकीदार, एक रेस्टोरर अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार महाविद्यालय की कंप्यूटर लैब के लिए एक कंप्यूटर अनुदेशक व एक लैब अटेंडेंट अनुबंध पर नियुक्त हैं।

महाविद्यालय में आई क्यू एस ई, महिला प्रकोष्ठ प्रभाग, आर टी आई , एनएएसी , प्लेसमेंट सेल , पुस्तकालय इत्यादि सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

विद्यार्थी संख्या एवं संकाय

महाविद्यालय के सत्र 2016-17 में विद्यार्थियों की कुल संख्या 371 है। इनमें से 196 विद्यार्थी कला संकाय पास कोर्स प्रथम वर्ष, 68 विद्यार्थी बी.ए. द्वितीय वर्ष व 56 विद्यार्थी बी.ए. तृतीय वर्ष तथा 30 विद्यार्थी वाणिज्य संकाय बीकॉम प्रथम वर्ष, 10 विद्यार्थी बीकॉम द्वितीय वर्ष व 11 विद्यार्थी बीकॉम तृतीय वर्ष में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

वार्षिक परीक्षा देने वाले अंतिम वर्ष के छात्रों की संख्या कोर्स अनुसार - बी.ए. तृतीय वर्ष - 56 व बी.कॉम. तृतीय वर्ष - 11 .

विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता एवं छात्रवृत्ति

उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा समय पर राष्ट्रीय राज्य स्तरीय योग्यता पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति से संबंधित विकलांग तथा छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विशेष उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति तथा बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) तीनों वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कंसोलिडेटेड स्टीपेंड स्कीम घोषित की गई है।

उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत इस वर्ष महाविद्यालय के अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थियों को 2000 रुपये प्रति छात्र पुस्तकों के लिए तथा 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से प्रति छात्र को स्टीपेंड फंड की एक वर्ष की राशि वितरित की जा रही है।

पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को सरकार की तरफ से आधार नंबर के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली के द्वारा छात्रवृत्ति वितरित की जा रही है।

छात्राएं अंडर ग्रेजुएट मेरिट छात्रवृत्ति के अंतर्गत हरियाणा सरकार से प्राप्त राशि - 12वीं कक्षा में टॉपर महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त सात छात्राओं को प्रति छात्रा 3000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

मेरिट प्रोत्साहन छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत हरियाणा सरकार से प्राप्त हुई राशि को बी.ए., बीकॉम तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय परीक्षा में महाविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रमशः 5000, 3000, व 2000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

EARN WHILE YOU LEARN के अंतर्गत इस वर्ष 12 विद्यार्थियों को महाविद्यालय के पुस्तकालय, कार्यालय, भूगोल लैब, मनोविज्ञान लैब, रक्षा अध्ययन व कंप्यूटर लैब में कार्य करने के लिए सरकार के आदेशों के अनुरूप प्रति घंटा सौ रुपये प्रदान किए गए।

क्रीड़ा जगत

1 उत्तर प्रदेश के मेरठ में रोल गेम फेडरेशन कप का आयोजन 11 से 13 नवंबर तक किया गया जिसमें महाविद्यालय के 2 विद्यार्थियों ने पदक जीतकर कॉलेज का नाम रोशन किया महाविद्यालय के छात्र से चेन्नई इन गेम्स में हिस्सा लेते हुए 3000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता।

- 2 अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में शहीद दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय की छात्रा पायल ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतकर कॉलेज का नाम रोशन किया इस प्रतियोगिता का आयोजन मेरठ के स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में किया गया।
- 3 महाविद्यालय के द्वितीय वर्ष के छात्र संजय ने सोनीपत में आयोजित जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीतकर कॉलेज का नाम रोशन किया।
- 4 1-3 फरवरी, 2017 को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में आयोजित हुई तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिता में कुश्ती में प्रदीप कुमार ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में व संदीप ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता।
- 5 महाविद्यालय की छात्रा पायल ने अर्जुन इंदौर ओपन शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर महाविद्यालय का नाम रोशन किया।
- 6 महाविद्यालय के छात्र संजय ने करनाल में आयोजित ताइक्वांडो प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर महाविद्यालय का नाम रोशन किया।
- 7 27-30 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में आयोजित हरियाणा स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में महाविद्यालय की प्रथम वर्ष की छात्रा पायल ने प्रतिभागिता की।
- 8 22-25 अगस्त 2016 को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन भिवानी में आयोजित स्टेट इंटर कॉलेज रेसलिंग टूर्नामेंट में महाविद्यालय के छात्रों ने प्रतिभागिता की।
- 9 10 नवंबर 2016 को मेरठ में आयोजित जूनियर रूरल गेम्स फेडरेशन कप में महाविद्यालय के छात्र सचिन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- 10 12 नवंबर, 2016 को महाविद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हुई जिसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागीता की। इस अवसर पर 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर दौड़, व मटका दौड़, म्यूजिकल चेयर, लॉग जंप, डिस्कस थ्रो इत्यादि इवेंट्स में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय महिला कुश्ती टीम के प्रमुख कोच कुलदीप मलिक ने छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए।
- 11 15-18 मार्च 2017 को राजकीय महाविद्यालय जींद में आयोजित स्टेट इंटर कॉलेज कबड्डी टूर्नामेंट में महाविद्यालय प्रतिभागिता की।
- 12 13-17 अक्टूबर 2017 को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्टेट इंटर कॉलेज कबड्डी टूर्नामेंट में महाविद्यालय ने प्रतिभागिता की।

13 महाविद्यालय में बैडमिंटन, वॉलीबॉल, चेस, कबड्डी इत्यादि गेम्स में इंटर क्लास टूर्नामेंट का आयोजन भी किया गया।

14 महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र मोहित ने हरियाणा रूरल गेम्स फेडरेशन क्लब एथलेटिक्स में द्वितीय स्थान प्राप्त किया

सांस्कृतिक कार्यक्रम

अगस्त, 2016 में महाविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मेरे गांव के स्वतंत्रता सेनानी विषय पर राष्ट्रवाद भाईचारे व देशभक्ति को लेकर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें छात्र-छात्राओं ने बड़ चढ़कर हिस्सा लिया।

15 अगस्त, 2016 को देश के 70 वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन महाविद्यालय में किया गया। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य डॉ रवि प्रकाश आर्य रैपिड एक्शन फोर्स डिप्टी कमांडेंट सुनील कुमार ने तिरंगा फहराने के बाद शहीद दलबीर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

राजकीय महाविद्यालय में देश भक्तिपरक कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें छात्राओं ने शहीदों की याद में देशभक्ति कविता व नाटक का मंचन किया।

17 सितंबर, 2016 को कन्या महाविद्यालय, खरखौदा में इंटर कॉलेज अकैडमिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया जिसमें क्विज प्रतियोगिता में महाविद्यालय के छात्रों ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

9 अक्टूबर, 2016 को महाविद्यालय में टेलेंट सर्च प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें विद्यार्थियों ने सांझी, फुलझड़ी, रंगोली, भाषण, कविता वाचन, गायन और नृत्य आदि प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता की।

4 नवंबर, 2016 को महाविद्यालय में एकता और सुरक्षा विषय आधारित कविता लेखन व स्लोगन लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें कविता लेखन में अंकित, धनराज व निशा और स्लोगन लेखन में अंकुश, ममता व भारती ने स्थान प्राप्त किए।

नवंबर, 2016 को महाविद्यालय में राष्ट्रीय एकता सप्ताह के अंतर्गत निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें चंदा, रिचा और धनराज ने पुरस्कार जीते।

10 नवंबर, 2016 को हिंदू कॉलेज सोनीपत द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय आधारित राज्य स्तरीय वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें महाविद्यालय से चंदा और मनीषा ने प्रतिभागिता की।

12 जनवरी, 2017 को महाविद्यालय में युवा दिवस के अवसर पर पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें प्रथम स्थान ममता, द्वितीय स्वीटी व तृतीय स्थान अंकित ने प्राप्त किया।

3 फरवरी, 2017 को महाविद्यालय में फैशन शो का आयोजन किया गया जिसमें 50 छात्राओं ने प्रतिभागिता की। प्रतियोगिता में बी. कॉम प्रथम वर्ष की छात्रा किरण को प्रथम, बी. ए. द्वितीय वर्ष की छात्रा पूजा को द्वितीय व बी. ए. प्रथम वर्ष की छात्रा रविता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता के लिए छात्राओं ने स्वयं ही अपनी पोशाक डिजाइन की थी।

महाविद्यालय में 10-11 फरवरी, 2017 को दो दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। महाविद्यालय का सांस्कृतिक कार्यक्रम रस तरंगिणी नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डीआरडीओ दिल्ली की पूर्व निदेशक डॉ सुरेंद्र कौर उपस्थित रही। कॉलेज प्राचार्य डॉ रवि प्रकाश आर्य की अध्यक्षता में आयोजित इस दो दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में कॉलेज के विद्यार्थियों ने हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा से परिचित कराया। इस आयोजन द्वारा विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति के नजदीक लाने का प्रयास किया गया। प्रदेश की संस्कृति पर आधारित ललित कला की दस प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं यथा - बीजना बनाना, फुलझंडी बनाना, मांडना, मींडी बनाना, सांझी बनाना, कढ़ाई, मेहंदी, पाककला, पीढा भरना, खिलौने बनाना। इसके अतिरिक्त गायन प्रतियोगिता, नाटक, हास्य नाटिका व एकल नृत्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया।

शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि

इंटर कॉलेज एकेडमिक फेस्टिवल में महाविद्यालय के ललित कुमार, परीक्षित सरोहा व कुमारी ज्योति ने वाणिज्य प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

महाविद्यालय के तृतीय वर्ष के छात्र परीक्षित ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों में अंतिम परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया।

प्लेसमेंट सेल

शैक्षणिक सत्र 2016-17 में ताऊ देवीलाल राजकीय महाविद्यालय मुरथल सोनीपत में आयोजित रोजगार मेले में महाविद्यालय की विद्यार्थियों ने प्रतिभागिता की।

जागरूकता अभियान

1. 14 अगस्त, 2016 को महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं को फिल्म दिखाकर एड्स से संबंधित जानकारियां दी गईं। विद्यार्थियों ने फिल्म के माध्यम से एचआईवी व एड्स की बीमारी होने के कारण लक्षण व उनके बचाव के विषय में जाना। इस अवसर पर प्राध्यापक कृष्ण दहिया जी ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए यह जरूरी है कि वह आधा अधूरा ज्ञान न रखें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
2. अगस्त माह में स्वीप के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें विनोद, मनीषा व अन्य विद्यार्थियों को पुरस्कार दिये गये।
3. 12 नवंबर, 2016 को महाविद्यालय में जिला निर्वाचन कार्यालय सोनीपत की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कॉलेज के विद्यार्थियों को लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्वस्थ निर्वाचन हेतु युवा पीढ़ी को आगे आने के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर स्वस्थ निर्वाचन नामावली एवं निष्पक्ष चुनावों के बिना प्रजातंत्र एक मृत मरीचिका विषय पर विद्यार्थियों ने निबंध लेखन व भाषण प्रतियोगिता में भी प्रतिभागिता की।

महिला प्रकोष्ठ

1 26 सितंबर, 2016 को महिला प्रकोष्ठ द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न छात्राओं ने हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया प्रतियोगिता में कला संकाय तृतीय वर्ष की छात्रा अंकुश में प्रथम स्थान प्राप्त किया

2 महिला प्रकोष्ठ की संचालिका सहायक प्रोफेसर किरण सरोहा की देखरेख में महिला उत्पीड़न विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर अशोक शर्मा एडवोकेट राजेश शर्मा ने भी विद्यार्थियों को महिला उत्पीड़न के कारण और उसके बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी इस अवसर पर विद्यार्थियों ने भी इस विषय पर अपने विचार रखें।

3 महाविद्यालय के महिला प्रकोष्ठ प्रभात द्वारा फैशन शो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 50 छात्राओं ने प्रतिभागिता की। प्रतियोगिता में बी. कॉम प्रथम वर्ष की छात्रा

किरण को प्रथम, बी. ए. द्वितीय वर्ष की छात्रा पूजा को द्वितीय व बी. ए. प्रथम वर्ष की छात्रा रविता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। फैशन शो प्रतियोगिता का आयोजन महिला प्रकोष्ठ प्रभारी श्रीमती किरण सरोहा की देखरेख में किया गया।

4 महाविद्यालय में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के जूडो कोच सुभाष चंद्र ने छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जिससे कि छात्राएं अकेले होने की स्थिति में बिना घबराए वह खुद को असहाय महसूस किए अपनी सुरक्षा कर सकें।

लेखन कार्यशाला

महाविद्यालय में लेखन कार्यशाला का आयोजन किया गया। डॉक्टर रवि प्रकाश आर्य ने इस अवसर पर बताया कि लिखाई से व्यक्ति का व्यक्तित्व उजागर होता है।

पुस्तकालय

पुस्तकालय विद्यार्थी तथा शिक्षकों के ज्ञानार्जन व आत्मविश्वास का सर्वोत्तम स्थान है। इसके महत्व एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में हर प्रकार की सुविधा से युक्त एक आधुनिक पुस्तकालय भवन है। जिसमें एक समय में लगभग 20 विद्यार्थियों के बैठने की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ विभिन्न विषयों से संबंधित लगभग 580 पुस्तकें हैं। आधुनिक युग प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्धा का युग है। इस क्षेत्र को सामने रखते हुए समसामयिक घटनाओं की जानकारी व सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए पुस्तकालय में अंग्रेजी व हिंदी में 6 समाचारपत्र तथा 3 पत्रिकाएं मंगवाई जाती हैं।

विधि साक्षरता प्रकोष्ठ

महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने विभिन्न जिला स्तरीय विधि साक्षरता प्रकोष्ठ की ओर से प्रतिभागिता की।

कंप्यूटर शिक्षा

हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार महाविद्यालय में एक कंप्यूटर लैब स्थापित है। कंप्यूटर लैब में 15 कंप्यूटर हैं। एमडीयू के तहत महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है। श्री राजेश कुमार कंप्यूटर शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। इस शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को थ्योरी व प्रैक्टिकल देना अनिवार्य है। जिसके उपरान्त A+ से D तक ग्रेडिंग भी जाती है। हमारे पास एक लैब में प्रोजेक्टर की सुविधा उपलब्ध है।

विभागीय गतिविधियां

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य विभाग की ओर से आयोजित लेखन प्रतियोगिता में महाविद्यालय के बीकॉम तृतीय वर्ष के छात्र परिषद ने पहला तृतीय वर्ष से ही छात्रा चंदा व प्रथम वर्ष अंजू ने संयुक्त रूप से दूसरा, व बीकॉम प्रथम वर्ष की शीतल के साथ तृतीय वर्ष के ललित ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया

इतिहास विभाग

महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा युवा दिवस के उपलक्ष में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें बीए प्रथम वर्ष की ममता ने पहला b.a. तृतीय वर्ष की स्वीटी में दूसरा b.a. तृतीय वर्ष के अंकित से तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रोफेसर किरन सरोहा ने कहा कि युवा एक नई सोच नई ऊर्जा का ही रूप है इसलिए युवाओं को अपनी सोच व ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में आगे आना चाहिए जिससे बेहतर समाज का निर्माण हो सके।

हिंदी विभाग

महाविद्यालय में 14 सितंबर, 2016 को हिंदी दिवस के अवसर पर निबंध लेखन और कविता वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निबंध लेखन में धनराज प्रथम व बबीता द्वितीय स्थान पर रही। कविता वाचन में धनराज प्रथम व अंकिता द्वितीय स्थान पर रही।

महाविद्यालय की आवश्यकताएं

किसी भी गतिशील संस्था के विकास के लिए आवश्यकताओं का होना स्वभाविक है। अतः महाविद्यालय की भी कुछ आवश्यकताएं हैं। जो निम्न प्रकार हैं -

1 विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमारे महाविद्यालय की कला संकाय में 80 सीटों की एक ओर यूनिट की आवश्यकता है।

2 विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हमारे महाविद्यालय में आधारभूत आवश्यकताओं की कमी है।

3 विज्ञान की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। महाविद्यालय में विज्ञान संकाय होने से आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को या तो विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है या उससे वंचित रहना पड़ता है। हमारे महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की आवश्यकता है ताकि आसपास के विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिल सके।

4 मीडिया के बढ़ते हुए प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता के विभिन्न अंगों की शिक्षा को आरंभ करना भी महाविद्यालय की एक मुख्य आवश्यकता है।

- 5 स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में खेल के मैदान की आवश्यकता है।
- 6 महाविद्यालय में पार्किंग की सुविधा की आवश्यकता है।
- 7 महाविद्यालय में विद्यार्थियों व स्टाफ सदस्यों के लिए जलपान गृह की भी आवश्यकता है।
- 8 महाविद्यालय में विद्यार्थियों के आवागमन को सरल बनाने के लिए बस स्टॉप की आवश्यकता है।

अंत में निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि शहीद दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय दिनोंदिन उच्च दिशा में प्रगति कर रहा है। महाविद्यालय के लगातार प्रगति में महाविद्यालय परिवार (शिक्षण एवं गैर शिक्षण) स्टाफ सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आशा है कि महाविद्यालय के कर्मठ व सहयोगी स्टाफ सदस्यों के लगातार प्रयासों के फलस्वरूप महाविद्यालय भविष्य में भी इसी तरह प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा।
धन्यवाद।

डॉ रविप्रकाश आर्य

प्राचार्य

एसडीएस राजकीय महाविद्यालय खरखोदा, सोनीपत